

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
सोनभद्र

पत्रांक- 1183 /1B

दिनांक- 28-05-20

संदर्भ-सनबीम स्कूल, राबर्टसगंज के निदेशक का पत्रांक -
47 / RBI / 2015 ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सनबीम स्कूल तीरनाहीं,
राबर्टसगंज का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के
मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है।


Digitally signed
by AMIT KUMAR
SINGH

Date: 2021.05.20
14:23:30 +05'30'

Sunbeam School, Robertsganj



Principal


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
सोनभद्र

Sunbeam School, Robertsganj


Principal
22/5/21


Manager
Sunbeam School
Robertsganj

विद्यालय का नाम - सनबीम स्कूल, बिच्छी तिरनाही, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
 विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
 सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/रक्षक अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिले से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में पालन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ, नहीं
7.	क्या भवन का ऑरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का संचुलन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छोटे क्षेत्रों में 3.0मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की उचाई 6.0मी0 एवं उचाई 4.5मी0 है?	हाँ
14.	क्या छिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? छिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 उचाई 2.0मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (सीमो) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1600 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150मिमी0 है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लायन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

Manager
Sunbeam School
Robertsganj

सहायक प्राचार्य
प्रांतीय शिक्षा बोर्ड
सोनभद्र

अध्यापिका अमियन्ता
प्रांतीय शिक्षा बोर्ड
सोनभद्र

Sunbeam School, Robertsganj

Sunbeam School, Robertsganj Digitally signed by
AMIT KUMAR SINGH
Date: 2021.05.20
14:24:21 +05'30'

Principal
22/5/2021